



LOYOLA CONVENT SCHOOL, RANCHI

Summer Holiday Homework (2025-26)

Class- VII

ENGLISH

1. Choose 5 English proverbs (e.g., "Actions speak louder than words"). For each: Write its meaning in your own words. Draw a creative illustration or comic strip showing the proverb in action.
2. Imagine you met Astronaut Sunita Williams for tea. Write a dialogue between her and you (at least 10–15 lines).
3. Draw a neat and creative chart showing the difference between Finite and Non-Finite Verbs. Include definitions, key differences, examples, and also mention the types of Non-Finite Verbs with suitable examples.
4. Create a tense chart using the base sentence "They play football." (write in the correct structure and give example sentence for each of the 12 tenses.)
5. Read any one of the following books and write a summary (70-100 words) along with the moral of the story:
 - a) The Magic of the Lost Temple by Sudha Murthy
 - b) The Blue Umbrella by Ruskin Bond

HINDI

1. एक कवि ने कहा कि 'शब्दों का प्रयोग सही ढंग से करना ही कविता है।' इस वाक्य का अर्थ समझिए और इसे अपने शब्दों में लिखिए।
2. 'मैंने देखा कि वह बगीचे में खेल रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
3. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
4. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
5. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।

SANSKRIT

1. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
2. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
3. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
4. 'वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।' इस वाक्य में कौन-कौन से काल और रूप प्रयोग किये गए हैं? 50 शब्दों में बताइए।
 - i) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - ii) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - iii) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - iv) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - v) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - vi) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - vii) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - viii) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - ix) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।
 - x) वह बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था।

MATHEMATICS

1. Write tables from 5 to 25.
2. Write in Roman Numerals from 50 to 250.
3. Complete Activity 2 to 6 in the activity notebook.
4. Write properties of multiplication of Integer with two examples (closure, commutative, multiplication by zero, multiplicative Identity, associativity for multiplication, Distributive)
5. Write definitions of Data, Range, Mode, Median, Mean.

6. Collect the cost of five fruits of summer and represent the data on bar graph.

SCIENCE

1. Discuss the types of symbiotic relationship in Give examples of each of them. Also list the symbiotic relationship between plants and animals.
2. Collect the pictures of insectivorous plants and paste them in your homework notebook. Write few lines about them.
3. List five physical and 5 chemical changes that takes place around you. Also draw a neat diagram of each of them.
4. Mention the different types of thermometers. How are they used to measure temperature. Draw neat diagrams of them.
5. Make flash cards for elements from atomic number 1 to 20. Mention the following details on the card: Name of the element, Symbol of the element atomic number and atomic mass. (You may use colourful papers and card board pieces).
6. How can we make a conscious effort used in forest station in our area? Explain the various impact of deforestation with the help of pictures and suitable graphic organizers.
7. Explain sea breeze and land breeze with the help of labelled diagrams. "

SOCIAL SCIENCE

1. Geography : Create a small 3D model of the earth's layers using clay , papermache , or other materials.
2. Civics : Research and write about real life examples of equality or inequality in your community/neighbourhood.
3. History : Research and write about how a particular aspect of society (e.g,technology,art, architecture) changed over time.
4. Map skill :- Compare and contrast different types of maps (e.g,physical,political,thematic)

COMPUTER

1. Define the following:
i) Operating System ii) E-mail iii) AI iv) Browser v) Cloud Storage
2. List 5 precautions to take while using the Internet.
3. Write 10 keyboard shortcuts used in MS Word (like Ctrl+S).
4. Explain the difference between system software and application software with examples.
5. Write pseudo code for the followings:
i) To calculate area of triangle. ii) Square of a number.
iii) Determine whether a student will get scholarship or not by checking his annual percentage of session 2024-25.

[illegible]